

उपायुक्त ने की विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

समाचार गेट/अनिल मोहननियां
नूह। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने वीरवार को लघु सचिवालय संथित कांस्टेंस हाल में जिता प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और उनके विभाग से संबंधित विकास कार्यों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ विकास कार्यों की प्रगति के लिए कार्य करें विभाग के वर्जन कार्यों को लंबात न रखें। उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में प्रतिविन विभिन्न विभागों से संबंधित विभागों प्राप्त हो रही हैं, जिन पर संबंधित विभाग गंभीरता से कार्य करें। सरकार ने कई योजनाओं के लिए समय सीमा नियमित की गई है, उन कार्यों को उसी समय सीमा में



पुरा किया जाए। सीएम घोषणाओं से संबंधित कार्यों को भी प्राप्तिकारिता के आधार पर सूचा करवाया जाए। उन्होंने बैठक में समाधान शिविर, सीएम स्विंडो, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्वामीत्व

योजना, मनरेगा, सीएम घोषणाएं, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, प्रांटी आईडी व एसएमजीटी सहित अनेक योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा की। इस

अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसीयूटी अनिसुल्त यादव, एसडीएम प्रदीप अहलावत, सीटीएम अशोक कुमार, आरटीए मुनीष सहगल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से किया जा रहा निवारण : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा



समाचार गेट/अनिल मोहननियां
नूह। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशनुसार जिला प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे समाधान शिविरों में आमजन की समस्याओं का

प्राथमिकता से निवारण करवाया जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हर कार्यदिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर

प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक उपमंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर

से अधिकतर का मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निवारण करवा दिया गया। वहाँ लंबात रही विभागों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारी को जल्द निवारण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नूह में लगाए समाधान शिविर में 8 विभागों प्राप्त हुई तथा उपमंडल फिरोजपुर-झिल्ली में 01 तथा उपमंडल पुहुना में आयोजित समाधान शिविर में एक विभाग लगाया गया है। इस अवसर पर एडीसी प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम प्रदीप अहलावत, नगरानीश अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एसटीपी मिर्जापुर का निगम कमिश्नर ए मोना श्रीनिवास ने किया औचक निरीक्षण

प्लांट से ट्रीट होकर निकलने वाले पानी से की जा सकती है सिफाई



का लगभग 80 एमएलडी सीवर का गंदा पानी पहुंचता है जिसे ट्रीट किया जाता है और उसके बाद सिंचाई के विधान के रजवाहे में भेजा जाता है। यह ट्रीट होने के बाद पानी सिंचाई के भी उपयुक्त होता है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर गौरव आर्तिल, एक्सइंजन पदम भूषण, अनिल मेहता भी मौजूद रहे।

का लगभग 80 एमएलडी सीवर का गंदा पानी पहुंचता है जिसे ट्रीट किया जाता है और उसके बाद सिंचाई

के विधान के रजवाहे में भेजा जाता है। यह ट्रीट होने के बाद पानी सिंचाई के भी उपयुक्त होता है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर गौरव आर्तिल, एक्सइंजन पदम भूषण, अनिल मेहता भी मौजूद रहे।

जनता की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान शिविर में हो रहा निपटाया : डीसी

डीसी विक्रम सिंह ने सुनी समाधान शिविर में शिकायतें



रहा है। डीसी विक्रम सिंह ने नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सचिवालय सभार में लोगों की शिकायतों का समाधान शिविर में लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करते हुए जरूरतमंद लोगों की सार्वजनिक व्यक्तिगत शिकायतों का प्राथमिकता से निनदा किया जा

समाधान शिविर में वीरवार को

लक्ष्मण बीकानेर एस्टोरेंट पर ग्राहक ने लगाया झूठा खाना परोसने का आरोप

रेस्टोरेंट संचालक ने दी सफाई, कहा— ग्राहक गलतफहमी का हुए शिकार



समाचार गेट/जितेन्द्र सिंह
बल्लभगढ़ बल्लभगढ़, शहर चाला कॉलोनी में चल रहे लक्ष्मण बीकानेर रेस्टोरेंट पर ग्राहक द्वारा आरोप लगाया गया है कि रेस्टोरेंट के चालीनों को जहाँ से ग्राहकों को सर्वे किया जाता है वापस वर्षी पर ले जाकर रख दिया और उसी में चटनी और व्याज मिलाकर फिर से वही कार्य कर दिया। हमने इस बारे में परिवार किया जाता है कि हमारे यहाँ पर इसी तरह से ही सर्वे किया जाता है ग्राहकों द्वारा चटनी व्याज का अलग से लिया जाता है जिस कारण वह झूठी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि भविष्य में किसी के साथ ऐसी भी ऐसा ना हो।

चाला कॉलोनी निवासी पंकज चौहान बोले

चाला कॉलोनी निवासी पंकज चौहान द्वारा बताया गया कि वह पहले भी इस रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खाने गए थे, जहाँ उन्होंने इनकी हरकतों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और पहले इनको चेतावनी देकर छोड़ भी दिया। लेकिन नव वर्ष पर फिर से वही कार्य उनके द्वारा किया गया जिसका मैं विरोध किया गया तो मैं नेजर ने कहा कि हमारे यहाँ पर इसी तरह से ही सर्वे किया जाता है ग्राहकों द्वारा चटनी व्याज का अलग से लिया जाता है जिस कारण वह झूठी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि भविष्य में किसी के साथ ऐसी भी ऐसा ना हो।

द्या कहना है बीकानेर के मालिक का

जब बीकानेर रेस्टोरेंट मालिक लक्ष्मण द्वारा इस घटना पर बात की गई। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा की ना ही हम किसी को झूठा खाना खिलाते हैं ना ही उनके संज्ञान में हमारे यहाँ पर और भी ग्राहक आते हैं, जिन्होंने शिकायत की है शावद वह किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार से झूठा खाना किसी ग्राहक को परोसा गया है। जब उनसे अलग-अलग कटोरी में अलग-अलग व्याजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ग्राहक की निजता और अपनी गुणवत्ता का बेहद ध्यान रखते हैं। ग्राहक ने हमारे प्लास्टिक की कटोरी में व्याज देने को कहा तो लास्टिक कटोरी में देने की तरीकी में दो किसी में तीन व्याज रह जाएं थी। हरी चटनी की बात करे तो चटनी की कटोरी पूरी भरी हुई थी था कि किसी को इसी तरह की शिकायत है वही अगर किसी ग्राहक को किसी तरह की शिकायत है तो हम भविष्य में गुणवत्तापूर्ण सर्विस के लिए इसमें सुधार करेंगे।

जिला में 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस : विश्राम कुमार मीणा



लघु सचिवालय, नूह के मैटिंग हॉल में होगा आयोजन


“समावेशी, सुगम एवं सहभागी निवारण की ओर अग्रसर” है इस वर्ष की थीम

समाचार गेट/अनिल मोहननियां
नूह। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में “समावेशी, सुगम एवं सहभागी निवारण की ओर अग्रसर” की थीम के साथ बाद-विवाद, चर्चा और ड्राइंग संचालन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए जिला और ज़िले स्तर पर एक एडीसी प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम प्रदीप अहलावत, नगरानीश अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

समाचार गेट/अनिल मोहननियां
नूह। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए जिला और ज़िले स्तर पर एक एडीसी प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम प्रदीप अहलावत, नगरानीश अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सकारी और गैर-सकारी एजेंसियों के सहयोग से स्कूली और कॉलेज छात्रों द्वारा खेल, जिला और राज्य स्तर पर संस्कृती लेखन, भाषण प्रतियोगिताओं, रैलियां, परेड ट्रूकिडियां, नुक़्बड़ नाकां आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का बायोंजन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों तथा बैस्ट बीएलओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने अधिकारी के बायोंजन करेंगे।

पुस्कर प्रदान करके सम्मानित किया जाएगा तथा नए बने युवा मतदाताओं को उनके पहले बैठक के बायोंजन पर जिला और ज़िले स्तर पर एक एडीसी प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम प्रद



आमिर खान करेंगे फिल्म लवयापा का ट्रेलर लॉन्च

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले दो नए चेहरे जुनैद खान और खुशी कपूर हैं, जिन्होंने पिछले साल ही अपने अभिन्य करियर की शुरुआत की थी। वे अब अपनी आने वाली फिल्म लवयापा के लिए चर्चा में हैं, जिसे 2025 में रिलीज़ किया जाना है। यह फिल्म अपनी धोषणा और फिल्मकार्न शुरू होने के बाद से ही चर्चा में है। पिछले हाले फिल्म का पहला गाना बिना किसी अधिकारिक पोस्टर, टीजर या ट्रेलर के रिलीज़ किया गया था। अब, निर्माताओं ने पहले ट्रेलर रिलीज़ करने का फैसला किया है और इसे कोई और नहीं, बल्कि जुनैद के पिता सुपरस्टार आमिर खान लॉन्च करेंगे।

जुनैद खान और खुशी कपूर की आने वाली फिल्म लवयापा का दर्शकों को बेस्टी से इंतजार है। इसके टाइटल ट्रैक को कई बॉलीवुड सिंगरों ने भी पेंस के द्वारा पार घार लुटाया था। पहले गाने को मिली तारीफ के बाद अब इस फिल्म से और भी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि आमिर खान इस हाले इसका ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं।

इस दिन होगा ट्रेलर लॉन्च

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म निर्माता अब ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार हैं और आमिर खान ने इसके रिलीज़ करने के लिए हाथी भर दी है। हालांकि जगह और समय के बारे में और जानकारी अभी धोषित नहीं की गई है। बताया गया है कि लवयापा के टाइटल ट्रैक की सफल रिलीज़ के बाद ट्रेलर अब लॉन्च के लिए तैयार है। आमिर खान 10 जनवरी, 2025 को इसका अनावरण करेंगे। लॉन्च के बारे में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा होना अभी बाकी है।

आमिर ने की खुशी की तारीफ

अद्वैत चंद्रन द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में जुनैद खान, खुशी कपूर और अन्य कलाकार हैं। हाल ही में आमिर खान ने फिल्म में खुशी कपूर के अभिन्य की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि जब मैंने फिल्म देखी और खुशी को देखा तो मुझे लगा कि मैं श्रीदेवी को देख रहा हूँ। उनकी ऊर्जा और मौजूदगी ने मुझे उनकी मां की याद दिला दी। मैं श्रीदेवी को बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था। वह एक असाधारण कलाकार थीं, जो कैमरा चातू होने पर जीवंत हो उठती थीं। खुशी के अभिन्य में भी वही चमक साफ़ झलकी है।



गोट में काम करने के बाद डिप्रेशन में व्ययों चली गई थीं मीनाक्षी? अभिनेत्री ने खोला राज

साल 2024 में मीनाक्षी चौधरी ने छह फिल्मों में काम किया था। नए साल पर वह अब संक्रांतिकी वस्त्रश्रव्म नाम की फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म में वह अभिनेता वैंकेश के साथ नजर आएंगी। इसका निर्देशन अनिल रविंद्री ने किया है।

मीनाक्षी ने खोला राज

हाल ही में एक इंटरव्यू में मीनाक्षी ने अपने जीवन के एक कठिन दौरे के बारे में बताया। उन्होंने साज्जा किया कि पिछले साल विजय की फिल्म द ग्रेटरेट ऑफ ऑल टाइम की रिलीज़ के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी पराफॉर्मेंस के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस आलोचना के बह एक हफ्ते तक

दिप्रेशन में चली गई थी। लक्षी भारकर में हुई काम की तारीफ मीनाक्षी ने अपना अनुभव साज्जा करते हुए कहा कि लक्षी भारकर जैसी तेलुगू लॉकेबस्टर की सफलता के बाद उन्हें दोर सारी सराजा मिली। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि आने वाले साथ में सही प्रोजेक्ट्स का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है।

जल्द इन फिल्मों में आएंगी नजर

अभी हाल ही में उन्होंने नवीन पॉलीशेट्टी के साथ अनगत्या अकां राजु नाम की फिल्म को साइन की है। फिलहाल, मीनाक्षी अपनी आगामी फिल्म संक्रांतिकी वस्त्रश्रव्म के प्रचार में व्यस्त है। यह फिल्म 14 जनवरी, 2025 को रिलीज़ होगी।



बेबी जॉन के बाद जी2 में नजर आएंगी वामिका गब्बी

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन के साथ फिल्म बेबी जॉन में अभिनय के बाद अब वामिका गब्बी जी2 में नजर आएंगी। फिल्म की थूटिंग यूरोप में पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में वामिका के साथ अदिवि शेष और इमरान हाशमी नजर आएंगी।

अभिनेत्री वामिका गब्बी, जिन्हें हाल ही में वरुण धवन के साथ एवशन फिल्म बेबी जॉन में देखा गया था, वह अब विनय कुमार सिरिगिनीटी द्वारा निर्वाचित आगामी जासूसी श्विलर जी2 में नजर आएंगी। फिल्म जौ2 अदिवि श्विलर तिरियत 2018 की हिट जासूसी श्विलर गुडाचारी का सीक्रेट है।

वामिका जासूसी श्विलर फैंचाइजी की इस

अगली किस्त में ड्रगरान हाशमी और अदिवि शेष के साथ नजर आएंगी।

वामिका गब्बी ने फिल्म जी2 में अपनी उपरिति को जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की

जानकारी शेयर करते हुए मैं बेहतरीन

को-एक्टर अदिवि सेही से का साथ करूँ।

वामिका गब्बी को जानता हुए इंस्टाग्राम पर एक

पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में वामिका

और अदिवि नजर आ रहे हैं। इसके साथ

उन्होंने कैशन में लिखा, स्पाई, एकशन

एडवेंचर जी2...अपनी अगली फिल्म की